



# NOVO NORDISK RESPONSE PROGRAM

## प्रोग्राम से जुड़ी जानकारी

Novo Nordisk Response Program (नोवो नॉर्डिस्क रिस्पांस प्रोग्राम) ([www.nnrp.ca](http://www.nnrp.ca)) कनाडा में नए आने वाले अप्रवासियों और शरणार्थियों के लिए है जिनके पास दवा बीमा तक बिलकुल भी पहुंच नहीं है और जिनके पास अपने Novo Nordisk इंसुलिन और सुइयों का खर्च वहन करने के लिए वित्तीय साधन नहीं हैं।

## प्रोग्राम के विवरण

Novo Nordisk Response Program रोगी का Novo Nordisk Response Program लाभ कार्ड सक्रिय होने की तारीख से लेकर 120 दिनों के लिए चुनिंदा Novo Nordisk इंसुलिन और सुईयां प्रदान करता है।

यह प्रोग्राम **अस्थायी** समर्थन प्रदान करने के लिए आशयित है जबकि रोगी निजी/पूरक दवा बीमा सुरक्षित करते हैं या सार्वजनिक दवा कार्यक्रम के लिए आवेदन करते हैं।

यदि Novo Nordisk Response Program को सक्रिय करने के 120 दिनों के भीतर निजी/पूरक या सार्वजनिक दवा बीमा प्राप्त किया जाता है, तो Novo Nordisk Response Program के लाभ बाद में समाप्त कर दिए जाते हैं।

## प्रोग्राम के लाभ कार्ड

Novo Nordisk Response Program लाभ कार्ड रोगियों को उनके स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर द्वारा प्रदान किए जाते हैं।

## इंसुलिन प्रदान करने वाले उपकरणों के लिए समर्थन

- [FlexTouch® इंजेक्शन प्रदर्शन वीडियो \(अंग्रेज़ी\)](#)
- [NovoPen® 4 इंजेक्शन प्रदर्शन वीडियो \(अंग्रेज़ी\)](#)
- [NovoPen® Echo® इंजेक्शन प्रदर्शन वीडियो \(अंग्रेज़ी\)](#)

## और अधिक प्रश्न हैं?

Novo Nordisk Response Program के बारे में अधिक जानकारी के लिए, Novo Nordisk कस्टमर केयर से 1-800-465-4334 पर संपर्क करें।



# NOVO NORDISK

## RESPONSE PROGRAM

### उत्पाद के साथ शामिल हैं

<b>Tresiba®</b>	2467879 - Tresiba® U-100 FlexTouch® 2467887 - Tresiba® U-200 FlexTouch®
<b>NovoRapid®</b>	2377209 - NovoRapid® FlexTouch® 2244353 - NovoRapid® Penfill® 2245397 - NovoRapid® शीशी
<b>Levemir®</b>	2412829 - Levemir® FlexTouch® 2271842 - Levemir® Penfill®
<b>NovoMix®</b>	2265435 - NovoMix® 30 Penfill®
<b>Novolin® ge 30/70</b>	2025248 - Novolin® ge 30/70 Penfill® 2024217 - Novolin® ge 30/70
<b>Novolin® ge NPH</b>	2024268 - Novolin® ge NPH Penfill® 2024225 - Novolin® ge NPH
<b>Novolin® ge Toronto</b>	2024284 - Novolin® ge Toronto Penfill® 2024233 - Novolin® ge Toronto
<b>सुईयां</b>	NovoFine® 32G Tip etw x 6 मिमी

### NOVO PEN® उपलब्धता

**NovoPen® 4** उपकरण रोगियों के लिए फार्मसियों में निःशुल्क उपलब्ध हैं।

**NovoPen® Echo®** उपकरण हेल्थकेयर प्रोफेशनल के कार्यालय में या स्थानीय डायबिटीज़ एजुकेशन सेंटर में अनुरोध द्वारा उपलब्ध हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, फार्मासिस्ट Novo Nordisk कस्टमर केयर से संपर्क करके सीमित मात्रा में NovoPen® Echo® उपकरणों का अनुरोध कर सकते हैं: 1-800-465-4334.

इस कार्यक्रम में शामिल उत्पाद Novo Nordisk Canada Inc. के एकमात्र विवेक पर हैं और किसी पूर्व सूचना के बिना परिवर्तित हो सकते हैं।



# NOVO NORDISK RESPONSE PROGRAM



## अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

### → क्या एक से अधिक Novo Nordisk दवा के लिए लाभ कार्ड का उपयोग किया जा सकता है?

हां! Novo Nordisk Response Program लाभ कार्ड को केवल एक कवर की गई चिकित्सा या Novo Nordisk इंसुलिन के किसी भी कवर किए गए संयोजन के लिए रिडीम किया जा सकता है।

### → क्या Novo Nordisk Response Program लाभ कार्ड का इस्तेमाल एक से अधिक बार किया जा सकता है?

हां! समान लाभ वाले Novo Nordisk Response Program लाभ कार्ड का उपयोग 120 दिनों तक इंसुलिन को रिफिल करने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा, Novo Nordisk Response Program प्रत्येक लाभ कार्ड रिडेम्पशन के लिए 1 बॉक्स सुईयां प्रदान करता है (अधिकतम 4 बॉक्स तक)।

### → क्या Novo Nordisk Response Program के लाभ कार्ड की समय सीमा समाप्त होती है?

Novo Nordisk Response Program को कनाडा में नए आए व्यक्तियों के लिए अस्थायी राहत प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। प्रोग्राम का लाभ कार्ड 120 दिनों तक Novo Nordisk की चुनिंदा इंसुलिन और सुइयों तक पहुंच सुनिश्चित करता है। इन 120 दिनों के भीतर, प्रोग्राम के प्राप्तकर्ताओं को निजी / पूरक दवा बीमा खरीदने के लिए या विभिन्न प्रांतीय और क्षेत्रीय सार्वजनिक दवा कार्यक्रमों के लिए आवेदन देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

यदि Novo Nordisk Response Program को सक्रिय करने के 120 दिनों के भीतर निजी/पूरक या सार्वजनिक दवा बीमा प्राप्त किया जाता है, तो Novo Nordisk Response Program के लाभ बाद में समाप्त कर दिए जाते हैं।

### → क्या सम्मिलित Novo Nordisk इंसुलिन के लिए कोई लागत या शुल्क है?

नहीं! Novo Nordisk Response Program, Novo Nordisk द्वारा निर्मित दवा और सुइयों की लागत के साथ-साथ उद्योग मानक मार्क-अप और वितरण फीस को कवर करता है।



# NOVO NORDISK

---

## RESPONSE PROGRAM



### → क्या Novo Nordisk Response Program में सुईयां शामिल की जाती हैं?

इस प्रोग्राम में चुनिंदा सुईयां शामिल की गई हैं। Novo Nordisk Response Program प्रत्येक लाभ कार्ड रिडेम्पशन के लिए 1 बॉक्स सुईयां प्रदान करता है (अधिकतम 4 बॉक्स तक)।

### → मैं विभिन्न प्रांतीय और क्षेत्रीय सार्वजनिक दवा लाभ प्रोग्रामों के बारे में अधिक जानकारी कहाँ से प्राप्त कर सकता/सकती हूँ?

अधिक जानकारी के लिए कनाडा सरकार की वेबसाइट पर स्थित पृष्ठ [प्रांतीय और क्षेत्रीय सार्वजनिक औषधि कार्यक्रम](#) पर जाएं।